

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल- बक्सर

पत्रांक- 1586 अ०/बक्सर

दिनांक- 03/11/22

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल- बक्सर

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव
बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण (BRRDA)
बुद्ध मार्ग, पटना।

विषय- शीर्ष 3054 (बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति- 2018) योजना अंतर्गत राशि की अधियाचना के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि योजना शीर्ष 3054 मरम्मत (बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति- 2018) अंतर्गत कराये गए कार्यों के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता है जिसे अधियाचना प्रपत्र के साथ सलग्न कर भेजा जा रहा है।

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि सलग्न विवरणी के अनुसार आवंटन उपलब्ध कराने की कृपा की जाए ताकि संवेदकों द्वारा कराये गए कार्य का भुगतान किया जा सके।

अनु०- यथोक्त

विश्वासभाजन

02.11.22

कार्यपालक अभियंता
ग्रा०का०वि०, कार्य प्रमंडल- बक्सर

AK
02.11.22

FORM GFR 19-A

(SEE Government of India's Decision (I) below Rule-150)
Form of Utilisation Certificate upto the month of Dec 2018

PIU - RWD (W), Div.- Buxar

MR (3054) New Maintenance Policy 2018

Sl. No.	Name of Scheme	Sanction No. & Date with Amount (in Rs. Lacs)	Amount Received (in Rs. Lacs)	Particulars
1	Construction of Rural Roads under MR (3054) Maintenance	Lt. No.- 05, dt.-25.01.2022	5494.56438	Certified that out of Rs. 5494.56438 lacs received during the years in favour of Ex. Engineer, RWD (W), Div.- Buxar Bihar, a sum of Rs 5494.37628 lacs has been utilized for the purpose of MR (3054) New Maintenance Policy 2018 Schemes as given in the margin for which it was sanctioned and that the balance of Rs 0.18810 lacs remaining unutilized at the end of the period under.
Total -				

- 2 Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grants-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled/ are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

Kind of Checks exercised :-


- Works have been supervised by Executive Engineer/ Supertending Engineer.
- Periodical inspection has been conducted by Executive Engineer/ Supertending Engineer.
- Construction materials have been tested
- Measurements have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant.
- All other codal formalities have been observed.

3 Physical Progress achieved :-

- Construction of Road works
- Construction of CD works


Executive Engineer

R.W.D. (w) Div. Buxar


2.11.22

Requisition Format for Scheme Head- MR (3054) under Bihar Rural Road Maintenance Policy- 2018 (Initial Rectification and Surface Renewal)

Name of Works Division- RWD, Works Division- Buxar

Sl No	Package No.	Name of Road	Project ID as per MIS	Administrative Approval (AA) Letter No. & Date	Administrative Approval (AA)		Agreement Amount		Agreement No. & Date	Date Of Completion as per Agreement	Value of IRI (in mm/km)	Thickness of Bitumen Layer (in mm)	Value of Bitumen Content in percentage	Previous Total Allocated Amount (in Lakh)	up-to-date expenditure as per MIS (in Lakh)	Requisition against work done (in Lakh)	Remarks
					Length (in Km)	Amount (in Lakh)	Initial Rectification With Surface Renewal (in Lakh)	5 Years Routine Maintenance (in Lakh)									
1	RM/BU/BU X/22/0006	Buxar Harhi Path To Gurdas Mathiya Hote Huve Laiganj Village Tal	10401912001	Lt. No.- 2005, Dt.- 02/05/2022	1.150	61.656	52.74859	11.64390	22/MBD/ 2020-21 & 08/10/2022	07-07-23	2896	25 mm	5.03%	0	0	51.88121	
2	RM/BU/BU X/22/0006	Jariganwan - karanasi	10401902072	Lt. No.- 2005, Dt.- 02/05/2022	2.380	76.47	56.87576	28.15740	22/MBD/ 2020-21 & 08/10/2022	07-07-23	2973	25 mm	5.01%	0	0	56.49982	
3	RM/BU/BU X/22/0006	L024 - Parari Sandhara SH, T01 to Dahiwar (L24)	10401902075	Lt. No.- 2005, Dt.- 02/05/2022	1.150	49.50	38.60751	13.86860	22/MBD/ 2020-21 & 08/10/2022	07-07-23	2776	25mm	5.00%	0	0	38.46950	

1. Signed Hard Copy and Soft Copy (in excel) of recorded IRI is enclosed
2. Up-to-date Physical Progress has been uploaded in MIS

Executive Engineer
RWD (W), Div.- Buxar

02.11.22
02.11.22

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बक्सर

का0आ0स...1585 बक्सर/ दिनांक...03/11/22

कार्यालय आदेश

प्रमाणित किया जाता है कि बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीती-2018 योजनान्तर्गत जरिगाँवा से करहँसी पथ का कार्य गुणवत्ता एवं विशिष्टियों के अनुरूप पूर्ण कराया गया है। पथ के मापीपुस्त की जाँच मेरे द्वारा 50 प्रतिशत एवं कनीय अभियंता के द्वारा शत प्रतिशत किया गया है।


21/11/22

कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रशाखा बक्सर

03/11/22

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, बक्सर

File :C:\Users\AMIT\Desktop\SEC 79 REPORT.xlsx Section No. :79, Eqn : $Y = 0 \cdot X^2 + 0.901 \cdot X + 246.4$
 Name of Customer :AMIT KUMAR, Name of Work/ Road :JARIGAWA TO KAR HANSL, Lab Job number :



22/11/22
8/11/22

ROAD NAME - JARIGAON TO KARAHANSI CONTRACTOR NAME - AMIT KUMAR

Date	Time	Section	Length	Bumps	Speed	OR	IRI, CATEGORY	Latitude	ongitude	Event	
		No.	in km	in mm	Rate	mm/km	mm/km				
8/11/22	9:0:1	79	0.1	0	0	2900	2859 G	25.51996	83.96894	Normal	$Y = 0 * X^2 + 0.901 * X + 246.4$
8/11/22	9:0:36	79	0.1	280	30.3	2800	2769 G	25.51985	83.96976	Normal	X = 0
8/11/22	9:1:11	79	0.1	330	30.3	3300	3219 G	25.51982	83.97034	Curve	Y = 246
8/11/22	9:1:46	79	0.1	280	31.2	2800	2769 G	25.51926	83.97098	Normal	
8/11/22	9:2:0	79	0.1	320	30.3	3200	3129 G	25.51894	83.97126	Normal	(R) RURAL ROAD
8/11/22	9:2:0	79	0.1	350	32.5	3500	3399 G	25.51817	83.97111	Normal	Good
8/11/22	9:2:22	79	0.1	350	30.3	3500	3399 G	25.51665	83.97121	Normal	Average
8/11/22	9:2:57	79	0.1	360	30.3	3600	3490 G	25.51583	83.97128	Normal	Poor
8/11/22	9:3:0	79	0.1	310	31.2	3400	3309 G	25.51531	83.97121	Normal	<4000
8/11/22	9:3:0	79	0.1	290	30.3	2500	2498 G	25.51449	83.97128	Normal	4001-5000
8/11/22	9:3:32	79	0.1	270	32.5	2600	2589 G	25.5134	83.97141	Normal	>5001
8/11/22	9:3:32	79	0.1	260	30.3	2900	2859 G	25.51177	83.97135	Normal	
8/11/22	9:4:7	79	0.1	330	31.2	2700	2679 G	25.5114	83.97125	Normal	
8/11/22	9:4:7	79	0.1	310	30.3	3100	3039 G	25.51099	83.97098	Normal	
8/11/22	9:4:7	79	0.1	270	31.2	2700	2679 G	25.51045	83.97051	Curve	
8/11/22	9:5:0	79	0.1	250	30.3	2600	2589 G	25.50982	83.97054	Normal	
8/11/22	9:5:18	79	0.1	290	30.3	3200	3129 G	25.50862	83.97077	Normal	
8/11/22	9:5:18	79	0.1	260	30.3	2900	2859 G	25.50783	83.97077	Normal	
8/11/22	9:5:53	79	0.1	250	31.2	2700	2679 G	25.50747	83.97089	Normal	
8/11/22	9:6:0	79	0.1	270	32.5	2800	2769 G	25.50708	83.97116	Curve	
8/11/22	9:7:3	79	0.1	310	30.3	2700	2679 G	25.50661	83.97136	Normal	
8/11/22	9:7:3	79	0.1	290	30.3	2800	2769 G	25.50613	83.97135	Speed Breaker	
8/11/22	9:8:0	79	0.1	300	30.3	3200	3129 G	25.50538	83.97133	Normal	
8/11/22	9:9:0	79	0.8	210	31.2	2900	2859 G	25.50458	83.9713	Normal	

LENTHE - 2.380 KM

AVERAGE 2973

20/11/22
Jarigaon to Karahansi